



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2005/माघ 4, 1926

No. 65]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2005/MAGH 4, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2005

का.आ. 78(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट सेक्शन) का निर्माण (चार लेन का बनाने) और 98/058.5 कि.मी. से 127/450 कि.मी. तक के भूखण्ड पर किलाचूर में टोल प्लाजा का निर्माण करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन ऐसी भूमि के उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी, वेल्लीर, तमिलनाडु को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और उनका उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (98/058.5 कि.मी. से 127/450 कि.मी.) कृष्णागिरि-रानीपेट सेक्शन और किलाचूर में टोल प्लाजा के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

जिला : वेल्लोर

तालुक : वेल्लोर

गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
किलाचूर	449/2	निजी	शुष्क	3700
	499/1डी	निजी	शुष्क	450
	499/1ई	निजी	शुष्क	200
	499/2ए	निजी	मकान स्थल	164
	513/1बी	निजी	शुष्क	850
	514/ए2	निजी	मकान स्थल	23
	514/5बी	निजी	मकान स्थल	328
	514/6बी	निजी	शुष्क	300

[फा. सं. भाराप्र/18011/23-1/2000-प.का.ई.1V/3ए/110]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS.

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2005 .

S.O. 78(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (four-laning) of National Highway No. 46 (Krishnagiri-Ranipet Section) and Toll Plaza at Kilachur on the stretch from K.m. 98/058.5 to Km. 127/450 in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land for the above said purpose;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of the land for the aforesaid purpose under Sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special District Revenue Officer, Vellore, Tamil Nadu, in writing and shall set out the grounds thereof and the said competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under Sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested persons at the office of the said competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired on National Highways No. 46 (Km. 98/058.5 to Km. 127/450) Krishnagiri-Ranipet Section and Toll Plaza at Kilachur in the State of Tamil Nadu.

DISTRICT: VELLORE

TALUK: VELLORE

Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area of land in Sq. Mtrs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KILACHUR	449/2	Private	Dry	3700
	499/1D	Private	Dry	450
	499/1E	Private	Dry	200
	499/2A	Private	House Site	164
	513/1B	Private	Dry	850
	514/A2	Private	House Site	23
	514/5B	Private	House Site	328
	514/6B	Private	Dry	300

[F. No. NHAI/18011/23-1/2000-P(U.1V/3A/110)]

ALOK RAWAT, Jr., Secy.